

प्रेस नोट

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी ने ली दीव के अधिकारियों की बैठक

दीव, दिनांक 5/07/2018- केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव आज दिनांक 5/07/2018 को दीव में पहुँचे । दीव एयरपोर्ट पर समाहर्ता महोदय श्री हेमन्त कुमार ने गुलदस्ता और पुस्तक से उनका स्वागत किया । इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया । अपराहन में माननीय मंत्री महोदय ने केवडी में बन रहे एजुकेशन हब तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घोघला में बन रहे आवास और झींगा फार्म का मुआयना किया । इसके बाद अपराहन करीब 4:00 बजे घोघला सर्किट हाऊस में अधिकारियों के साथ बैठक की । बैठक में सबसे पहले समाहर्ता, दीव ने माननीय मंत्री महोदय का स्वागत किया एवं जिला स्थित सभी अधिकारियों का परिचय कराया । इस अवसर पर दीव में चल रहे विकास कार्य एवं भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन से संबन्धित एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया ।

तत्पश्चात समाहर्ता महोदय ने मंत्री महोदय को जानकारी दी कि भारत सरकार से विभिन्न योजना एवं परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का जो अनुदेश मिलता है, उसी को ध्यान में रखकर दीव में गंभीरतापूर्वक सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है । हम सभी सरकारी योजनाओं को सौ-प्रतिशत क्रियान्वित करते हैं । उन्होंने बताया कि दमण एवं दीव में खुले में शौचमुक्त अभियान के अन्तर्गत कुल 2156 शौचालय बनाये गये हैं, इसमें दीव में कुल 401 शौचालय बने हैं । इस प्रकार खुले में शौचमुक्त अभियान को पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है एवं दीव पूरी तरह खुले में शौचमुक्त जिला बन गया है । डिजिटल भुगतान को भी निष्ठा के साथ क्रियान्वयन किया गया है । इसके लिए हमें दिल्ली में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है ।

सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में चाहे उज्वला स्कीम हो, स्वाभिमान भारत स्कीम हो या बेटे जन्मोत्सव मनाने का कार्य हो, इन्हें भी शत-प्रतिशत क्रियान्वित किया गया है । हर महीने बेटे जन्मोत्सव मनाते हुए बेटियों को बधाई किट वितरित की जाती है । प्रधानमंत्री की जनधन योजना के अन्तर्गत सौ-प्रतिशत उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली गई हैं । प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या दुगनी कर ली गई है ।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दीव में पर्यटन क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए 24 फरवरी को पवनहंस हेलिकॉप्टर की शुरुआत की गई थी और उसी दिन प्रधानमंत्री की उड़ान योजना के अन्तर्गत दीव से अहमदाबाद के लिए भी हवाई यातायात की शुरुआत की गई । समुद्रमार्ग से दमण से दीव जाने - आने के लिए काटामारन सेवा को चालू करने हेतु सर्वे किया जा रहा है । मत्स्यउद्योग के विकास क्षेत्र में दीव में जेट्टी का निर्माण किया जा रहा है और बारिश के दौरान बोटों को प्लेटफार्म पर उठाकर रखने के लिए फिशिंग प्लेटफार्म का निर्माण किया जा रहा है ।

इसके अलावे उन्होंने मंत्री महोदय को यह भी जानकारी दी कि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु 250 करोड की लागत से एजुकेशन हब का निर्माण किया जा रहा है । यह कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा ।

02 विद्यालय भवनों को विस्तारित किया जा रहा है एवं 02 नये विद्यालय भवन बनाये जा रहे हैं । न्यू इण्डिया- न्यू दमण एवं न्यू दीव के अन्तर्गत प्रशासक महोदय के मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा है । हम बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों को नन्दघर में परिवर्तित कर रहे हैं । इसके अलावे फुड क्राफ्ट संस्थान शुरू करने के लिए कदम उठा रहे हैं ।

समाहर्ता महोदय ने यह भी बताया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है । इसमें दीव के युवाओं के साथ नजदीकी शहरों से भी युवा शामिल होते हैं और उन्हें नौकरी मिलती है । दीव को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सिवरेज सिस्टम बना रहे हैं और ग्राम पंचायत के अन्तर्गत मॉडर्न आदर्श गाँव बनाना चाहते हैं । इस विषय पर माननीय मंत्री महोदय ने रुचि लेते हुए निर्वाचित सरपंचों को ग्राम पंचायतों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने वाली स्कीम के बारे में जिक्र किया । उन्होंने अगले 10 सालों के बाद खराब होने वाली सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए योजना बनाने हेतु निर्देश दिया । इसके साथ ही बैठक समापन की घोषणा की गई ।

बाद में मंत्री महोदय मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और उन्होंने भारत सरकार की योजनाओं के बारे में उनसे बातचीत की तथा उनके प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया ।

~~~~~